


KEVA




कीवा जाइंट्स केयर ड्रॉप्स



जोड़ों की समस्याएं


चोट या बीमारी के कारण जोड़ों की समस्याएं हो सकती हैं, जो जोड़ों के आसपास की नसों को प्रभावित करती हैं। चोट या बीमारी जोड़ों के भीतर और हड्डियों को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे जोड़ों में दर्द रह सकती है।




चलने से, वज़न उठाने से या किसी दबाव से
जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है



जोड़ों का दर्द हलके से लेकर काफी कष्टनाक हो सकता है जो निर्भर करता है उसके होने के कारण पर



जोड़ों के दर्द के साथ जुड़े रोग



गठिया, ऑस्टियोमलेशिया,
ऑस्टियोपेनिया,
ऑस्टियोपोरोसिस,
एमाइलॉयडोसिस, एंकीलॉज़िंग,
स्पॉन्डिलाइटिस, बर्साइटिस,
डिफ्यूज़ इडियोपैथिक स्केलेटल
हाइपरॉस्टोसिस (डीआईएसएच),
गैंग्लियन, गाउट, स्यूडोगाउट,
हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, जुवेनाइल
आर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डी में दर्द
और ऑस्टियो आर्थराइटिस

KEVA

कीवा जॉइंट्स केयर ड्रॉप्स



जोड़ों की देखभाल के लिए एक उन्नत सूत्र

अद्भुत एंटी-इंफ्लेमेटरी और दर्द से राहत देने वाले
एक्शन के साथ जो एक दर्द निवारक के रूप में कार्य
करता है



KEVA

कीवा जॉइंट्स केयर ड्रॉप्स की ज़रूरत क्यों

शरीर को ग्लाइकोसो अमीनो ग्लाइकेन्स और प्रोटीयो ग्लाइकेन्स की आवश्यकता होती है ताकि उपास्थि और ऊतकों को बनाए रखा जा सके। कीवा जॉइंट्स केयर ड्रॉप्स बूंदों के रूप में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है



कीवा जॉइंट्स केयर ड्रॉप्स की ज़रूरत क्यों

कई खेल, मांसपेशियों की कमजोरी, और बार-बार होने वाली चोटें, जोड़ों को कमजोर कर सकती हैं। कीवा जॉइंट्स केयर ड्रॉप्स की बूँदें जोड़ों की गति और लचीलेपन को कम करने के लिए एक अद्भुत फार्मूला है जो आपको रोजमर्रा की गतिविधियों का आनंद लेने में मदद करता है

KEVA



मुख्य सामग्री

विटामिन सी- 6mg

ग्लूकोसामाइन एचसीएल -20mg

बोसवेलिया- 6mg

कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट- 1.20 mg

ब्रोमेलैन (अनानास से)
- 80mg

MSM (मिथाइल
सल्फोनील मिथेन) -
0.50mg

साइट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स
का सघन (अंगूर, मैंडरिन
ऑरेंज और नींबू से) -
17.60mg


कोलेजन- 0.20 mg



ग्लूकोसामाइन एचसीएल



- ग्लूकोजामाइन उपास्थि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है
- ग्लूकोसामाइन सल्फर को उपास्थि में शामिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- उम्र बढ़ने के साथ, ग्लूकोसामाइन का स्तर नीचे जाता है, जिससे अंततः जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। ग्लूकोसामाइन की खुराक जोड़ों के आसपास के उपास्थि और द्रव को बढ़ाती है और इन पदार्थों के टूटने को रोकने में मदद करती है, इस प्रकार जोड़ों के विकारों में उपयोग किया जाता है



काँन्ड्रॉइटिन

यह उपास्थि का एक प्रमुख घटक है, जो आपके जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और आपकी हड्डियों को एक दूसरे के साथ रगड़ने से रोकता है। काँन्ड्रॉइटिन पानी और अन्य तरल पदार्थों को अवशोषित करता है, जो आपके उपास्थि को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के पूरक के रूप में लिया जाता है, जो गठिया का एक रूप है जो उपास्थि के टूटने के परिणामस्वरूप होता है



MSM (मिथाइल सल्फोनील मिथेन)



वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि एमएसएम के दर्द से राहत और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण इसका उपयोग घुटने के पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए ग्लूकोसामाइन के साथ या अकेले किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि एमएसएम और ग्लूकोसामाइन प्रभावी रूप से घुटने के पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस के दर्द से राहत देता है और दोनों के संयोजन से और भी बेहतर परिणाम मिलते हैं



विटामिन सी

यह मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, मुक्त कण क्षति से बचाता है। यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है, लचीलेपन में सुधार करता है और हानिकारक पर्यावरणीय कारकों से बचाता है। विटामिन सी दैनिक थकान, तनाव और कमजोरी के प्रभाव को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है



बोसवेलिया

बोस्वेलिया सेराटा, जिसे आमतौर पर भारतीय लोबान के रूप में जाना जाता है, को 600 ईसा पूर्व से भारत में पारंपरिक रूप से एक एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट के रूप में और गठिया के लिए एक प्राकृतिक इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से रूमेटाइड आर्थराइटिस, बर्साइटिस और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस में। यह जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है और जोड़ों की गतिशीलता को बढ़ाने का काम करता है



कोलेजन

कोलेजन एक प्रोटीन है जो स्वाभाविक रूप से पूरे शरीर में ऊतक में होता है। यह ऊर्जा और लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है, जोड़ों के आपस में घिसने से होने वाली क्षति या चोटों से बचाता है और इस प्रकार जोड़ों को सक्रिय बनाये रखता है



ब्रोमेलैन (अनानास से)



ब्रोमेलैन एक एंजाइम है जो अनानास में पाया जाता है जो जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करता है और जोड़ों को लचीला बनाए रखने के लिए ऊतकों के माध्यम से पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से निपटने के लिए ब्रोमेलैन उतना ही प्रभावी हो सकता है जितना कि एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं



साइट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स का सघन (अंगूर, मँडरिन ऑरेंज और नींबू से)



साइट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स को एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सिडेंट गुण होने के लिए जाना जाता है जो उपास्थि को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है।





KEVA

लाभ



क्षतिग्रस्त कार्टिलेज की मरम्मत करके खेल की चोट के लक्षणों को कम कर सकता है और इस तरह जोड़ों को कार्यशील रखता है



गठिये से जुड़ी सूजन को कम कर सकता है




गठिये के दर्द से राहत दिला सकता है



जोड़ों के बीच कोलेजन के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है





जोड़ों की गति और लचीलेपन में मदद कर सकता है

पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से दर्द को नियंत्रित करने में मदद करता है



जोड़ों में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है

पुरानी पीठ दर्द को दूर करने में मदद मिल सकती है

अकड़न कम कर सकता है



सेवन का तरीका



कीवा जॉइंट्स केयर ड्रॉप्स की 10 बूँदें दिन में दो बार सुबह और शाम को खाली पेट या भोजन से आधे घंटे पहले लें

बेहतर परिणाम के लिए नियमित रूप से 6-12 महीनों के लिए इसे दो बार दैनिक उपयोग करें

संपर्क करें

कीवा इंडस्ट्रीज

वेबसाइट : www.kevaind.org

KEVA

धन्यवाद

यह उत्पाद कोई दवा नहीं है और किसी भी बीमारी का इलाज, निदान या रोकथाम करने के लिए नहीं है। कृपया अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श लें।